

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 592]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 24, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

अधि. क्र. 116-एफ-1-13-2014-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिक निगम, जबलपुर जिला जबलपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	11	53—महर्षि अरविंद 58—सर्वपल्ली राधाकृष्णन 66—रानी लक्ष्मीबाई 44—आचार्य विनोबा भावे 48—सिद्धबाबा 52—पं. मदनमोहन मालवीय 78—नया वार्ड 29—राममनोहर लोहिया 62—डॉ. भीमराव अंबेडकर 63—शहीद भगत सिंह 09—दादा बाबूराव परांजपे
2.	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	75—नया वार्ड 70—लाला लाजपत राय 64—महर्षि सुदर्शन 77—नया वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	20	69—चन्द्रशेखर आजाद 18—शहीद गुलाब सिंह 60—निर्मल चंद जैन 19—कमला नेहरू नगर 26—पं. गोविन्द वल्लभ पंत 30—पं. दीनदयाल उपाध्याय 49—लाल बहादुर शास्त्री 43—डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी 33—स्वामी दयानंद सरस्वती 21—स्वामी विवेकानंद 13—पं. बनारसीदास भनोत 46—पं. द्वारका प्रसाद मिश्र 61—दीवान आधारसिंह 14—नरसिंह 23—लोक बालगंगाधर तिलक 76—नया वार्ड 47—सेठ गोविन्द दास 50—ठक्करग्राम 72—नया वार्ड 45—शीतलामाई
4.	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	05	62—डॉ. भीमराव अम्बेडकर 52—पं. मदनमोहन मालवीय 44—आचार्य विनोवा भावे 63—शहीद भगत सिंह 78—नया वार्ड
5.	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	77—नया वार्ड 64—महर्षि सुदर्शन
6.	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	10	50—ठक्करग्राम 69—चन्द्रशेखर आजाद 76—नया वार्ड 45—शीतलामाई 19—कमला नेहरू नगर 14—नरसिंह 33—स्वामी दयानंद सरस्वती 21—स्वामी विवेकानंद 26—पं. गोविन्द वल्लभ पंत 23—लोकमान्य बालगंगाधर तिलक

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	22	10—गुप्तेश्वर 17—रानी दुर्गावती 73—नया वार्ड 40—डॉ. जाकिर हुसैन 03—त्रिपुरी 74—नया वार्ड 08—ग्वारीघाट 28—जयप्रकाश नारायण 11—गिरीराज किशोर कपूर 05—सरदार वल्लभ भाई पटेल 32—सुभद्रा कुमारी चौहान 55—खेरमाई 59—शहीद अशाफाक उल्ला खां 42—नेताजी सुभाषचंद्र बोस 51—रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 35—महाराजा अग्रसेन 56—शहीद अब्दुल हमीद 01—गढा 39—चितरंजनदास 34—भवानी प्रसाद तिवारी 20—कस्तूरबा गांधी 16—महाराणा प्रताप

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

अधि. क्र. 117-एफ-1-13-2014-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिक निगम, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	06	23—संत रविदास वार्ड 18—राजेन्द्र नगर वार्ड 11—स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड 47—पं. माखनलाल चतुर्वेदी वार्ड 22—रानी दुर्गावती वार्ड 45—महर्षि वाल्मिकी वार्ड
2.	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	06	09—महारानी लक्ष्मीबाई 10—सिद्धी विनायक वार्ड 03—वीर सावरकर वार्ड 16—महात्मा गांधी वार्ड 48—पंचवटी वार्ड 01—डॉ. राधाकृष्णन वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	12	42—महावीर वार्ड 05—बादल भोई वार्ड 04—पृथ्वीराज चौहान वार्ड 07—लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 35—कुलबहरा वार्ड 46—श्री झूलेलाल वार्ड 44—पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 39—स्वामी विवेकानंद वार्ड 27—श्रीराम मंदिर बड़ीमाता वार्ड 08—शहीद भगतसिंह वार्ड 41—शहीद मेजर अमित ठेंगे वार्ड 32—संत तुकड़ोजी महाराज वार्ड
4.	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	03	23—संत रविदास वार्ड 45—महर्षि वाल्मिकी वार्ड 47—पं. माखनलाल चतुर्वेदी वार्ड
5.	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	03	48—पंचवटी वार्ड 09—महारानी लक्ष्मीबाई 03—वीर सावरकर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	06	05—बादल भोई वार्ड 46—श्री झूलेलाल वार्ड 42—महावीर वार्ड 08—शहीद भगतसिंह वार्ड 04—पृथ्वीराज चौहान वार्ड 41—शहीद मेजर अमित ठेंगे वार्ड
7.	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	12	31—छोटीमाता वार्ड 43—षष्ठी माता मंदिर वार्ड 29—पं. मदनमोहन मालवीय वार्ड 28—डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 14—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 13—जगन्नाथ वार्ड 24—महाराणा प्रताप वार्ड 25—छत्रपति शिवाजी वार्ड 17—संतोषी माता मंदिर वार्ड 33—ज्योतिबा फूले वार्ड 20—पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 36—भरतादेव वार्ड

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

अधि. क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति; अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिक निगम, भोपाल जिला भोपाल के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	संख्या	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम
(1)	(2)	(3)	क्रमांक नाम
			(4)
1.	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	12	10 ईदगाह हिल्स वार्ड 11 बाबू जगजीवन राम वार्ड 28 रानी अवंतीबाई वार्ड 47 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 48 अरेरा कालोनी वार्ड 49 आशा निकेतन वार्ड 50 गुलमोहर वार्ड 53 जाटखेड़ी वार्ड 59 बरखेड़ा बी.एच.ई.एल. वार्ड 63 गौतमबुद्ध वार्ड 76 छोला वार्ड 81 कान्हाकुंज वार्ड
2.	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	26 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 60 गोविन्दपुरा वार्ड
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	21	2 एयरपोर्ट वार्ड 7 कोह-ए-फिजा वार्ड 12 नारियल खेड़ा वार्ड 14 शाहजहांनाबाद वार्ड 17 इब्राहिमगंज वार्ड 19 लाल बहादुर शस्त्री वार्ड 22 मोती मस्जिद वार्ड 24 रानी कमलापति वार्ड 32 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 34 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 38 सेमरा वार्ड 41 बाग फरहत अफजा वार्ड 42 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 44 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 51 शाहपुरा वार्ड 52 मिसरोद वार्ड 54 बरकतउल्लाह वार्ड 64 सोनागिरी वार्ड 69 गुरूनानक देव वार्ड 70 पंजाबी बाग वार्ड 78 करोंद वार्ड
4.	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	06	28 रानी अवंतीबाई वार्ड 48 अरेरा कालोनी वार्ड 49 आशा निकेतन वार्ड 53 जाटखेड़ी वार्ड 63 गौतमबुद्ध वार्ड 76 छोला वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	01	60 गोविन्दपुरा वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	11	12 नारियल खेड़ा वार्ड 22 मोती मस्जिद वार्ड 24 रानी कमलापति वार्ड 34 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 41 बाग फरहत अफ़जा वार्ड 42 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 44 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 54 बरकतउल्लाह वार्ड 69 गुरुनानक देव वार्ड 70 पंजाबी बाग वार्ड 78 करोंद वार्ड
7.	महिलाओं के उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अतिरिक्त आरक्षित कुल वार्ड.	24	01 महात्मा गांधी वार्ड 04 हेमु कालानी वार्ड 05 साधू वासवानी वार्ड 06 महावीर गिरी वार्ड 09 बाग मुंशी हुसैन खां वार्ड 13 गीतांजली वार्ड 15 जे. पी. नगर वार्ड 16 मोतीलाल नेहरू वार्ड 18 राम मंदिर वार्ड 25 स्वामी विवेकानन्द वार्ड 29 मौलाना अबुल कलाम आजाद वार्ड 30 कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड 36 चांदबड़ वार्ड 39 नवीन नगर वार्ड 40 ऐशबाग वार्ड 55 बाग मुंगलिया वार्ड 57 साकेत-शक्ति वार्ड 58 कस्तूरबा वार्ड 62 हताईखेड़ा वार्ड 66 नरेला शंकरी वार्ड 72 राजीव गांधी वार्ड 73 भोपाल मेमोरियल अस्पताल वार्ड 77 रूसल्ली वार्ड 83 सनखेड़ी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.